

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन पहला पार्किंग प्लान विकसित कर रही है

निवासियों, कारोबारियों और लोकल स्टेकहोल्डर्स को फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया गया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 जनवरी, 2022) – चूंकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए पूरे शहर में लोगों का घूमने फिरने का तरीका बदलना जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में सुधार करने, पार्किंग संसाधनों का प्रबंधन करने और निवासियों तथा कारोबारियों की भविष्य की जरूरतों की हिमायत के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन पूरे शहर की पार्किंग की अपनी पहली समीक्षा कर रही है।

पार्किंग संबंधी जरूरतों ने किफायती घरों, विकास संबंधी लागतों और जमीन के प्रयोग संबंधी प्लानिंग को प्रभावित किया है। यह प्लान, ऐसी संपूर्ण, स्वस्थ, घूमने योग्य कम्युनिटीज विकसित करने के लिए, जो यह सुनिश्चित करती हों कि सभी सड़क यूजर्स की जरूरतों और सुरक्षा पर विचार किया जाता है और उपयुक्त रूप से उनका प्रबंध किया जाता है, निवासियों और कारोबारियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेगा।

इस प्रक्रिया के द्वारा, सिटी मौजूदा चुनौतियों और अवसरों की समीक्षा करेगी और अन्य अधिकार क्षेत्रों में बेहतर पद्धतियां स्थापित करेगी। ब्रैम्पटन पार्किंग प्लान (Brampton Parking Plan), मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत और पॉलिसीज पर सिफारिशें तथा भविष्य के लिए प्रभावी पार्किंग प्रबंधन प्रदान करेगा।

ब्रैम्पटन पार्किंग प्लान विकसित करना

प्लान के पहले फेज में, एक दृष्टिकोण और पॉलिसी फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए पार्किंग के मुद्दों और सिटी के व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों के बीच में संबंधों की समीक्षा की जाएगी।

इसके दूसरे फेज में, शहर के अंदर पार्किंग के लिए एक कारोबार और वित्तीय मॉडल हेतु, समीक्षा के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी।

पहली पार्किंग स्ट्रैटजी (Parking Strategy) की हिमायत करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आई.बी.आई. ग्रुप (IBI Group) के साथ जुड़ी है। यह प्लान, ब्रैम्पटन प्लान (Brampton Plan) और हाउसिंग ब्रैम्पटन (Housing Brampton) सहित, अन्य मौजूदा कार्यनीतियों के मुताबिक होगा।

अपनी राय दें

कारोबारियों, गैर-लाभ समूहों और टैक्सी तथा ट्रकिंग इंडस्ट्रीज सहित, निवासियों और स्टेकहोल्डर्स को, स्टडी के बारे में अधिक

जानकारी प्राप्त करने और फीडबैक प्रदान करने के लिए, वीरवार, 13 जनवरी को शाम 6 से 8 बजे तक, एक ऑनलाइन भागीदारी सेशन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाइन सर्वेक्षण भी 28 जनवरी तक उपलब्ध होंगे।

कार्यक्रम के लिए रजिस्टर करने, सर्वेक्षण पूरा करने और अधिक जानने के लिए, brampton.ca/parkingplan पर जाएं।

हवाले

“हाल ही के वर्षों में, ब्रैम्पटन ने ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोरों के साथ-साथ बड़ा तीव्रीकरण और ट्रांज़िट राइडरशिप में काफी वृद्धि देखी है। आगे बढ़ते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझने के लिए स्टैकहोल्डर्स के साथ जुड़ें कि इस समय हमारी सड़कों का प्रयोग कैसे हो रहा है और हम भविष्य के लिए बेहतर योजना कैसे बना सकते हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि भागीदारी सेशन में हिस्सा लें या फीडबैक प्रदान करने के लिए हमारा सर्वेक्षण पूरा करें और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन पार्किंग प्लान, हमें भविष्य के लिए कार्यनीति बनाने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। सभी निवासियों और स्टैकहोल्डर्स से हमारा अनुरोध है कि वे हमें प्लान में मदद करने के लिए इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और हमें बताएं कि ब्रैम्पटन के लगातार आगे बढ़ने में पार्किंग की जरूरत कैसे बढ़ेगी।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन का पार्किंग प्लान, हमें पार्किंग संबंधी अवसरों और अधिक स्मार्ट तथा अधिक प्रभावी तरीके के साथ प्लान की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। हमारे म्युनिसिपल साझेदारों और कम्युनिटी के मेम्बर्स के साथ काम करके हम, ब्रैम्पटन की मौजूदा तथा भविष्य की जरूरतें दर्शाने वाला व्यापक प्लान विकसित करने योग्य होंगे।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca